Yatharth Hospital and Trauma Care Services Limited

CIN No.: L85110DL2008PLC174706

September 06, 2024

The Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Symbol: YATHARTH ISIN: INE0J0301016

Dept. of Listing Operations

BSE Limited,

P J Towers, Dalal Street, Mumbai -400001, India

Scrip Code: 543950 ISIN: INE0J0301016

Dear Sir/Ma'am,

Subject: Compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the newspaper publication published on 06th September 2024 in Financial Express (English) and in Jansatta (Hindi).

The said publication may also be accessed on the website of the company i.e., https://www.yatharthhospitals.com/investors under Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015/ Newspaper advertisements.

We request you to take this on record.

Thanking you,

Your faithfully,

For Yatharth Hospital and Trauma Care Services Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Enclosed: As above

JA-108, DLF Tower A, Jasola District Centre, New Delhi - 110025

CREDIT RATING: This being the issue of Equity Shares, no credit rating is required.

DEBENTURE TRUSTEES: This being the issue of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required.

IPO GRADING: Since this issue is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency BASIS OF ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by the Company in consultation with the Book Running Load Managers. The financial data presented in section "Basis for Issue Price" on page no. 9 of the Real Herring Prospectus are based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the section titled "Risk Indicors" and "Restated Financial Statement" on page no 22 and 15 respectively of the Red Herring Prospecture.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013
CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF DUE COMPANY AS REGARDS ITS DUESCTS: For information on the main objects and other objects of our
Company, see "Our History and Certain Other Corporate Matters" on page 142 of the Red Herring Prospectus. The Memorandum of Association of our Company is
material document for inspection in relation to the issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" in page 357 of the Re

MOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is < 20.00.00.000 /- divided into 0.000.000 Equity Shares of < 10.11 each, the Issued, subscribed, and paid-up share capital of the Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue is < 13.39.000 Could be a Company before the Issue

IAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM ies of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subsc furm of Association of our Company: Manoj Kumar Gupta – 5,000 Equity Shares and Sindhu Gupta – 5,000 Equity S

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

Share India Share Inuia You generate, we multiply

RE INDIA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED ement, Sector - 64, N mail ld: kunal bansal@shareindia.co.in nvestors Grievance E-mail: info@share Website: www.shareindia.com CIN: U65923UP2016PTC075987

REGISTRAR TO THE ISSUE

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Address: 302. Kusai Bazar, Nehru Plac Delhi - 110019 Tel No: 011-42425004

Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance Email: Contact Person: Mr. Babu Rapheal C Website: www.bigshareonline.com SEBI Registration Number: MR/INR

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Vebsite: www.envirotechltd.com

Investors can contact our Company Secretary Compliance Officer, the Book Running Lead Manager the Registrar to the Issue, in case of any pre-Issue post-Issue related problems, such as non-receit of allotted Equity Shall letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shall the respective beneficiary account, non-receipt of reflecting and account problems. ers and non-receipt of funds by electronic mo

PRICE INFORMATION AND THE TRACK RECORD OF THE PAST ISSUES HANDELED BY THE BRLM

Sr. No.	Issue name	Issue size (₹in Cr.)	Listing date	Issue Price (₹)	Opening Price on listing date	+/-% change in closing price, [+/- % change inclosing benchmark]- 30 th calendar days fromlisting	+/- % changein closing price, [+/- % change inclosing benchmark]- 90th calendardays fromlisting	+/- % change inclosing price, {+/- % changein closing benchmark}- 180° calendar days fromlisting
1.	Anmol India Limited	10.23	February 12, 2019	33.00	33.60	-1.82% 6.31 %	-9.09% 8.94%	-9.70% 3.98%
2.	Humming Bird Limited	2.15	March 28, 2019	132.00	132.00	6.82% 0.16 %	-0.70%	-0.70%
3.	Maiden Forgings Limited	23.84	April 06, 2023	63.00	63.00	-4.33% 2.04%	30.43% 9.38%	75.08% 9.49%
4.	Exhicon Events Media Solutions Limited	21.12	April 17, 2023	64.00	64.00	129,92% 2.75%	241.64% 10.27%	338.75% 10.64%
5.	A G Universal Limited	8.72	April 24, 2023	60.00	60.00	-8.33% 3.05%	-22.50% 11.28%	9.83%
6.	Quicktouch Technologies Limited	9.33	May 2, 2023	61.00	92.00	110.90% 1.87%	129.67% 8.85%	344.10% 4.96%
7.	De Neers Tools Limited	22.99	May 11, 2023	101.00	190.00	74.50% 1.46%	142.57% 7.42%	130.89% 6.06%
8.	Krishca Strapping Solutions Limited	17.93	May 26, 2023	54.00	118.00	184.91% 0.90%	439.72% 4.80%	330.28% 7.09%
9.	New Swan Multitech Limited	33.11	January 18, 2024	66.00	125.40	51.29% 1.21%	11.79% 2.47%	47.35% 13.39%
10.	Wise Travel India Limited	94.68	February 19, 2024	147.00	195.00	19,73% -1.28%	61.19% 1.72%	181
11.	Pune e-Stock Broking Ltd	38.23	March 15, 2024	83.00	130.00	54.22% 2.20%	106.81% 5.74%	14
12.	AVP Infracon Limited	52.34	March 20, 2024	75.00	79.00	-6.33% 1.41%	83.20% 7.87%	
13.	Gem Enviro Management Limited	44.92	June 26, 2024	75.00	142.50	254.27% 3.38%		*
14.	VVIP Infratech Limited	61.21	July 30, 2024	93.00	215.00			

Financial	Total no.	Total amount of funds		POs trading a calendar da listing			o. of IPOs tradi um- 30th cales from listing	ndar days	discou	of IPOs trad int- 180th c iys from List	alendar		trading at Pr alendar days listing	
Year	of IPOs	raised (₹ Cr.)	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%
2021-22	-	- 1	4	1.5	19. 1	19.1				-	-	-	-	-
2022-23				(4)	- 0									
2023-24	10	322.29	-	465	-	5	2	3	- 21	-	-	-	-	-
2024-25	02	106.13	-	(-)		(4)	-					-	*	

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Runn Lead Managers to the Issue at www.shareindia.com, website of company at www.envirotechltd.com and websites of stock exchange a

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Envirote Systems Limited (fileiphone to, or 120-4337633 / 433743) Book Running Lead Maragers. Share India Capital Systems Comment (fileiphone to, or 120-4337633 / 433743) Book Running Lead Maragers. Share India Capital Systems Private Limited (fileiphone) and the designated for a state of the state

APPLICATIONS SUPPORTED BY REDCKED AMOUNT (ASRA): The investors are required to fill the application form and submit the same to the rele APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCAED AMOUNT (ASSA): The investors are required to fail the application form and submit the same to the reveal SCSSs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DP's. The SCSS's will block the amount in the account as per th authority contained in application form. On altofrenet, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for altothrent of shartes, Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASSA process, please refer to the details given in application forms an Red Herring Posspectus and also please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 267 of the Red Herring Prospectus.

APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE: Investors are advised to carefully refer SEBI Circular SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2018/138 dated November 01, 2018 and as modified through its SEBI circular (SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2019/50) dated April 3, 2019, SEBI circular (SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2019/50 dated April 3, 2019, SEBI circular (SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2019/56 dated July 26, 2019, SEBI circular SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2019/56 dated July 26, 2019, SEBI circular SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2019/56 dated July 26, 2019, SEBI circular SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2019/56 dated March 30, 2020, SEBI circular no. SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2019/56 dated March 16, 2021, SEBI circular no. SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2019/56 dated March 16, 2021, SEBI circular no. SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2021/47 dated March 16, 2021, SEBI circular no. SEBI-HO(CFD)DL2/CIR(P)2021/47 dated 30, 2009. SEBI circular no. SEBHHOCPD,DLL2/CIR(P)2021/24907/M dated March 16, 2021, SEBI circular no. SEBHHOCPD,DLL2/CIR(P)2021/47 dated March 13, 2021, SEBI circular no. SEBHHOCPD,DLL2/CIR(P)2021/45 dated April 20, 2022 and SEBI Circular no. SEBHHOCPD,DLL2/CIR(P)2022/45 dated April 20, 2022 and stry subsequent circulars or notifications issued by SEBI in this regard for the procedure to be followed for applying through IPI, Retail Individual Investor have to apply through IPI Mechanism. Retail Individual Investor March available to them to. Submission of application form with SCSBs/ using the facility linked online trading, demat and bank account list. For further details, please refer the chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 267 of the Red Herring Prospectus.

Sponsor Bank to the Issue: Yes Bank Limited

Banker to the Issue, Escrow Collection Bank and Refund Banker: Yes bank Limited

Investor should road the Red Herring Prospectus carefully, including the "Risk Factors" beginning on page 22 of the Red Herring Prospectus before making any investment decision.

or ENVIROTECH SYSTEMS LIMITED On Behalf of the Board of Directors Sd/-

Company Secretary Cum Compliance Office Envirotech Systems Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi & Haryana on September 02nd, 2024, BRLMs to the Issue at www.shareindia.com, website of company at www.envirotechltd.com and websites of NSE Limited i.e. www.nseindia.com respectively

Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 21 of the Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Red Herring Prospectus for making any investment decision The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United

States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

BANSAL

BANSAL WIRE INDUSTRIES LIMITED

CIN: L31300DL1985PLC022737

Registered Office: F-3, Main Road Shastri Napar, Delh-110052
Ph: 011-29551831/1929.

nail: investorrelations@bansalvire.com; Website: www.bansalwire.

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE OF 39" ANNUALS GENERAL MEETING

AND E-VOTING INFORMATION
In complance with the applicable provisors of the Companies Act. 2013 and the
reads framed thewards ("The ACT) and with General Circles. No. 14/20/20 dated
April 8, 2020, Circular No. 17/20/20 dated April 18, 2020, Circular No. 14/20/20 dated
April 8, 2020, Circular No. 20/20/21 dated December 14, 2021, Circular No. 20/20/21
dated December 8, 2021, Circular No. 21/20/21 dated December 14, 2022, Circular No. 20/20/21
dated December 8, 2021, Circular No. 16/20/20, Circular No. 16/20/20/2
dated December 8, 2021, Circular No. 16/20/20/2
dated December 14, 2022, Circular No. 16/20/20/2
dated December 8, 2021, Circular No. 16/20/20/2
dated December 8, 2022, Circular No. 16/20/2
dated December 9, 2022, Circular No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Circular No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, Act of Stories No. 16/20/2
date December 9, 2022, A

stions for remote e-voting and e-voting during AGM with the provisions of Section 108 and other applicable pro

Instructions for remote 4-vicing and e-vicing curring AGM in complanes with provisions of Section 168 and other pupilsable provisions of the Companies (Section 168 and other the Companies (Section 168 and other pupilsable provisions of the Companies (Section 168 and other the Companies (Section 168 and Associated Institute of Section 168 and Associated Institute Office of Section 168 and Associated Institute Office of Section 168 and Associated Office of Institute Office Office of Institute Office Office Office of Institute Office Office of Institute Office Of

who casses to be a Member as on Cul-off date should hear the ware-ware-proposes only.


Renote evering shall commence on Friday, September 27, 2024 (600 A.M. IST).

Renote evering shall commence on Friday, September 27, 2024 (600 A.M. IST) burning his period, Members roats their vote electronically. Thereafter, the remote evering module shall be classed by NSCIL for evering module shall be classed.

NSCIL for evering module shall be classed and the control of the con

One the member cast with a sur
control the member cast with a sur
subsequently. Debated instructions for remote e-ruling, jointly, so it subsequently. Debated instructions for remote e-ruling, jointly, so during the AGM, registation of e-rulal address and obtaining login details are provided in Notice of the 39 AGM.

Any person, who acquire sharely and become Member of the Company after the date of dispatch of Notice of the 39 AGM and hadds shares as on the Culeff dis-may obtain the Login D and Pessword by following the instructions as mentioned in Notice of the 33 AFM of sending a request at againing facilities. In the Notice of the appears is already registered with NSDL or Central Depository Services finding Limited for remote e-ruling. The ensisting Letter Developed Two Services for the Company is appointed Mis Rawal & Co., Practicing The Board of the Deceloration for Company has appointed Mis Rawal & Co., Practicing Company Secretary, as the Southhour for conducting the voting process through remote e-Vollege conduction of a fair and trasspeared manner. In case of any queries, the Member may yet the Proquently Asked Questions (FAGs) for Sharehchas and e-volling user manufa to fish entended as adulted at the download section of www.enrigin.com/com or out or 022-4680 TVO or sent a request to Mis-Pallad Mantac. Demotral Remote Miss Amery Ericho, Kamala Miss Compound, Lower Paral, Marmail-400013 or email at a goodpart.



PNC INFRATECH LIMITED
(CIN —L45201DL1999PLC19593T)
ed office: NBCC Haza, Towerd, 4th Floor, Pushy What, Sector-W, Saket, New Dehi-11001
itte: www.pncinfratech.com, Email: complianceofficer@pncinfratech.com

Notice of the 25th Annual General Meeting, Book Closure, Record Date for Dividend and E-Voting Information Office is hereby given to the Members of the Company and to all the persons that 25th Annual Company and to all the persons that 25th Annual Company and to all the persons that 25th Annual Company and to all the persons that 25th Annual Company and to all the persons that 25th Annual Company and to all the persons that 25th Annual Company and to all the persons that 25th Annual Company and the Property of the Proper

OTICS is hereby given to the Members of the Company of the State Internation of the Members of the Company of the State Internation of the Company of the Nation Instituted, September 28, 2024 at 11.00.44 at 11.00.44 and 10 Visual Nation (OMAI) is compliance with the pplicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (the Var) visions of the Securities Exchange Board Of India (Listing Obligations and Bioclosure squirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular No. 09/2023 at 428 deptember 26, 2023 and all other applicable circulars issue by the Ministry of Corporate Tairs, Government of India (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 at 188 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and circular No. 588/NO/CTD/CTD Pag 2/PCR/2023/167 as 189 of the State India Company (INCA) and Company (IN

Shareholders at a common venue, in compliance with the obresaid circulars, the AGM Notice and the Annual Report of the com-the financial year 2023 -24, has been electronically sent on Thurnday, September 5, 2024 by the thorough a complex whose email addresses are registered with the Company/Report Transfer Agent, Link in time India Private Limited/ Depository Participant(s). The said Annua Including AGM Notice is also available on the website of the Company https://www.pondinfatech.com/financials.html, on the website of My Link in time India Limited Link Interior PETAT of a https://disavote.linkinding.com_in and on the website Deckhanges is BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Lin www.mseindia.com

Invasional Science of the Company In Section 2002 of the Companies Act, 2013 read with fluid 20 of the companies (Management and Administration) Bules, 2014, as amended from time to time, crossions of Regulation 4 of the tisting Regulations, the Company is providing its Marcholders e-toring facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic provides a facility of cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic lost provides a facility of evoling to instructions are consistent with the companies of the emote e-voting. The Company has entered into an arrangement with Link It time for providing the more evolution. The company has entered into an arrangement with Link It time for providing the time to evoling during the AGM. The company has entered into an arrangement with Link It time for providing the time of Section 31 of the Act, Bules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing lingiplication and Discouring Requirements) Regulations, 2023 [Listing Regulation 14 of the Register Link Company (Link Company) and the section of the sec

Company,

Ke Deepak Gupta, Company Secretary, Partner of DR Associates (Membesth) to R. 55 S339; (529), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting through electronic means air and transparent manner. The result of voting will be excluded within two working days for onclusion of AGM I.e. on or before September 30, 2024 and results so declared along wit onclusion of AGM lie. on or before September 30, 2024 and results so declared along wit oncolidated Scrutinizer report will be placed on the Company's website (www.pncinfratech. nd Link In time's website (https://instavote.linkintime.co.in.).

he Shareholders are hereby requested to note that:

ate: September 05, 2024

- Shareholders are hereby resusted to note that:

 A person whom some recorded in the Register of Members/Beneficial owners maintained by
 the Depositories / RIA as on the cut off date is. Saturday, September 21, 2024 shall only be
 entitled to availl the facility of remote eventing ere- owing during the AGM.

 The remote evoting period will commence on Wednesday, September 25, 2024 at 9.00 AM.

 The remote evoting period will commence on Wednesday, September 25, 2024 at 9.00 AM.

 Company may cast their votes electronically on resolutions mentioned in the AGM Notice.

 Company may cast their votes electronically on resolutions mentioned in the AGM Notice.

 Company may cast their votes electronically on resolutions mentioned in the AGM Notice.

 The voting rights of the shareholders shall be in proprior to their shares in pack-up share

 capital of the Company as on the cut-off date is. Saturday, September 21, 2024.

 Only those Shareholders, who will be present in the AGM Notice and off from doing

 so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

 The shareholders who have cast their vote through remote e-voting may attend the AGM.

 The shareholders who have cast their vote through remote e-voting any attend the AGM.

- through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Any pesson, who become a member of the Company after seeding of the AGM Notice and prior to the Cut-off date is. Saturday, September 21, 2024 shall be entitled to exercise their voting rights electronically. A: "entoties evoling" as well as "evoling" and may obtain the loginil Date of prior seed to the company of the in case shareholders/members have any queries regarding attending AGM/e-voting, they may the company of the https://instavote.linkintime.co.du, under help section or Contact Mr. Rajik Raijian, Assistan this company of the company of the company of the company of the West, Mumbai-400083 on Phone: 91 22 49186000 or e-mail: enotices@linkintime.co.in or contact undersigned by writing an e-mail or compliancedired@priordireatch.com, phone no.
- 62-4054400.

 Company has fixed Saturday, September 21, 2024 as "Record Date" for determin titlements of members for receiving Dividend @ 30% i.e. Rs. 0.60/- (Rupee Sirty Paise or Tequity Share of Rs. 2/- each for the financial year ended 31st March, 2024. If declared, yment of dividend shall be made within 30 days of declaration

Company Secretary & Complia

financialexp.epapr.in



YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED

Regd. Office: JA 108 DLF Tower A, Jasola District Centre South Delhi 110025 CIN: L85110DL2008PLC174706 Email: cs@yatharthhospitals.com Ph.: +911206811236, Website: www.yatharthhospitals.com

NOTICE OF 17™ ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Molice is hardry given but the 17° (Seventrush) Annual Gerard Michael of the members of schardth Hospital & Taruma Care Services Limited** (CINL 251 100_2008PL C1174/206) will be held on Saturday, September 28, 2024 at 01:00 PM. Harvagh Volade on Conferencing (VC*) PMP or Apud Visual Memory (VOMP), to france with the business as so that on the Molece convenignt he AGM. In accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and SEBI Litting of Displayations, 2015 fread with Gerards Circuit his 0.10/2022, December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Companies Artians ("MAC Circularis") and Circular No. SEBI-NOCE/TOP-PD-PD-DI-Administry ("Secundary In the Ministry of Companies and Secundary ("Act Circularis") and Circular No. SEBI-NOCE/TOP-PD-DI-Administry ("ACM Circularis") and Circularis ("

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM and referred in the Notice of AGM or Annua Report shall be made available electronically for inspection by members upon request to the Company by sending email a

seSaVatharthbeadis.com.
In complance with the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (bereinatherreferred to as the Act) read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management) and Administration) Rules, 2014, 4. Regulation 440thbeaderelineased/changed-outhorfolders/clange/disconsan/discosor-deploarements/peoploar

vioted through remote a voting.

Members broiding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off data Monday, September 2 shall be entitled to cast vote through remote a-voting or attend the meeting through VC/OVAM and cast vote at AMA. The remote in the remote in the cut-off of the remote a voting is an originated the members as the lar proport onto their shares of the gade-pupuly share capital of the Company as or Cut-off the remote a-voting shall commence on Wednesday, September 25, 2023 at 9 60 M.M. (ST) and end on Friday, September 25, 2024 at 9 60 M.M. (Th). The remote a-voting mode shall be desidately of QSS, for voting presentate. Once the voting shall commence on Wednesday, September 25, 2024 at 9 60 M.M. (Th). The remote a-voting mode shall be desidately of QSS, for voting presentate. Once the voting the present of the voting of of the voting

Any member who acquires shares and become member after dispatch of notice of AGM and holding shares as of out-off date i.e. Monday, September 23, 2024 may obtain login id and password by sending email at <u>e-volting@nsdl.co.in</u>, beliedesk.evolting@odsfindla.com. However, you are registered with CDSL for remote e-voling then you can use your existing blase. Dear password for casting your vote.

User-Use na password for casting your vide.

Mc Sanar Usedaying, a Phasteine Company Secretary (Certificate of Practice No. 25283, Membarship No. ACS 67860).

Proprietor No: Sanaru Usedayay & Associates has been apported as the Scutimizer to scriptine the e-voting and remote e-voting process in all and that passpertimization as a series of the second process of the second

and participate at the AGM Members having any experiments any information are requested to write/send email to the company at least seven days in advance of AGM at segregation through the control of the AGM, please refer to the Frequently Asked To use of any question/emances relating to remote e-voting or e-voting at the AGM, please refer to the Frequently Asked Questions (FAGs) and e-voting user manual for Members available at <u>www.northmindia.com</u>, under help section or send an email to highedax exclusing coldination com control for ene n. 1900/25534.

By order of the Board of Dire For Yatharth Hospital & Trauma Care Services Li

New Delhi

Ritesh Mishra Company Secretary& Compliance Officer

Sumit Gupta Company Secretary and Compliance Officer

अधिकारों का प्रयोग कर रही है।

कब्जा सूचना

एडलवेइस असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिभिटेड

सीआईएन – यू67100एमएच2007पीएलसी174759 **खुदरा केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय :** एडलवेइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुंबई – 400098

जबकि, इसमें वर्णित प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 वं तत्त और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ती 2002 के (नियम 3) के साथ पठित घारा 13(2) के तहत प्रतत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सुवना जारें की थी, जिसमें कर्जदार(रों) से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी तदुपरांत, यहां नीचे वर्णित समनुदेशक ने नीचे वर्णित आस्तियां एडलवेइस असेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को समनुदेशित कर दी हैं, जो नीचे उल्लेखित विभिन्न द्रस्टीज की इसकी हैसियत से कार्यवाही कर रही है (इसमें आगे "ईएआरसी" कही गई है)। समनुदेशन अनुबंधों के अनुसरण में, सरफासी ऐक्ट, 2002 की घारा ह के तहत ईएआरसी ने समनुदेशनकर्ता का स्थान ले लिया है और अधोवर्णित प्रतिभूत हितों, गारीटेयों, बंघकों सहित कर्जदारों द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायत के संबंध में समनुदेशनकर्ता के सभी अधिकार, स्वामित्वाधिकार और हित ईएआरसी में निहित हो गए हैं तथा ईएआरसी एक प्रतिभूत लेनदार के रूप में अपने सभी

कर्जदार उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों) ⁄ सह–कर्जदार(रों) और सर्वसाधारण को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने ईएआरर्स के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसकी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति का कब्जा प्रत्येक ऋण खाते/बंधक सम्पत्ति के सामने वर्णित तिथि को ले लिया है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्यामृत आस्तियां छडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किय

कर्जदार(रों) को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उक्त संपत्ति व संबंध में कोई भी संव्यवहार एडलवेइस असेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

1	क्र.	समनुदेशक का	ट्रस्ट का	ऋण खाता	कर्जदार का नाम एवं	मांग सूचना की	कब्जा की	कब्जा की
	सं.	नाम	नाम	संख्या	सह-कर्जदार का नाम	तिथि एवं राशि	तिथि	स्थिति
	1.	एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड	EARC Trust - SC 482	179805	 श्री विनोद शर्मा (कर्जदार) श्रीमती रूबी देवी (सह-कर्जदार) 	रू. 50,71,610.40/- एवं 20-12-2023	02-09-2024	भौतिक कब्जा

अचल सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर सी-43 पर फ्लैट नंबर जी-1. सपर बिल्ट अप एरिया 600 वर्ग फीट भू तल पर, कैट–एमआईजी, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–।।, ग्राम ब्रह्मपूर उर्फ भोपूरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005

तिथि : 06-09-2024 स्थान : दिल्ली/एनसीआर इस्ता./- प्राधिकत अधिकारी, एडलवेड्स असेट रिकंस्टक्शन कम्पनी लिमिटेड



जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

{एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक }

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल , सर्वे नं. 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफडोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, छल्लाघट्टा, बैंगलोर- 560071

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत बैंक को दी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम के तहत अनुसूची संपत्ति का भौतिव कब्जा ले लिया है।

मेसर्स जा रुऑल फाइजेंस बैंक लिंकिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति विक्रय के लिए पहले ही कई सार्वजनिक नीलामियां आयोजित की थीं, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं होने के कारण वे असफल रहीं। इसलिए कृपया सूचित रहें कि यदि उपरोक्त ऋण खाते में कुल बकाया राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित संपत्ति की निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए आगे बढ़ेगा।

व्यापक पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति निर्ज संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है। ".

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्ते इस प्रकार हैं

1. निजी संधि के माध्यम से बिकी **"जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर"** होगी।

पुत्र नरेन्द्र देव (उधारकर्ता), 3) श्रीमती सुशीला

2. क्रेता को इस नोटिस के प्रकाशन की समाप्ति पर बिक्री मुल्य का 100: जमा करना होगा।

 बैंक द्वारा खरीद का प्रस्ताव स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी 4. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए क्रेता इस संबंध में बाद की तारीख में प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

5. बैंक बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 6. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क, सोसायटी बकाया वहन करनाहोगा।

7. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

		3.6		
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम	सरफेसी अधिनियम के तहत 13(2) डिमांड नोटिस के अनुसार राशि	निजी संधि के लिए आरक्षित मूल्य
1.	32059430000143	1)श्री हरीश कुमार, पुत्र चिरंजी लाल (उधारकर्ता) 2)श्रीमती कमलेश, पत्नी हरीश कुमार (सह-उधारकर्ता)	09.03.2023 तक रू. 7,84,242/- (सात लाख चौरासी हजार दो सौ बयालीस रुपये मात्र)	रू. 7,50,000 /- (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र)
		संपत्तियाँ का विवरणः- प्रतिभूति संपत्तियाँ का विवरणः र कवास, जिला–झज्जर। मालिक श्री हरीश, पुत्र श्री विरंजी		
2.	32059440000350	 मेसर्स मुकेश प्रोप. श्री राधे ख्याम ऑटोमोटिव का प्रतिनिधित्व इसके मालिक श्री मुकेश (उधारकर्ता) द्वारा किया जाता है, 2) श्री मुकेश, 	16.08.2022 तक रू. 4,45,221/- (रुपये चार लाख पैंतालीस हजार दो	रू. 2,10,000/– (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)

देवी पत्नी मुकेश (गारंटर) प्रतिश्रुति संपत्ति/अचल संपत्तियों का विवरण:- प्रितभृति संपत्तियों का विवरण:- खेवट संख्या २७१५, खतौनी संख्या ३०३४ वाका रकवा, मौजा गां महम, तहसील महम, जिला—रोहतक, मालिक श्रीमती सुशीला देवी पत्नी मुकेश। **सीमाएं: उत्तरः** 45'-0" पूनम का घर, **दक्षिणः** 45' 0" अन्य का प्लॉट

पूर्वः 15'0" गली, परिचमः 15'0" जगबीर का प्लॉट। उपरोक्त उधारकर्ता ∕ सह–उधारकर्ता का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रतिभृति संपत्तियों की बिक्री से पहले बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर उल्लिखित प्रतिभू

संपत्तियों को भुनाया जाता है। पत्राचार पताः श्री तुंग कौशिक (मोबाइल नं: 9873662400) tung.kaushik@janabank.com, श्री रंजन नाइक (6362951653) ईमेल ranjan.naik@janabank.com, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाग ते जाना जाता था), जिसका कार्यालय **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (शाखा कार्यालय का पताः** 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यूई.ए. आर्य समाज

नार्ग, करोल बाग, दिल्ली—110005) में है। दिनांकः ०६.०९.२०२४, स्थानः -झज्जर

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सौ इक्कीस मात्र)

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT APROSPECTUS ANNOUNCEMENT.





QR code to view the

GAJANAND INTERNATIONAL LIMITED

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the Companies Act, 1956 in the name and style of "Gajanand Cottex Private Limited" bearing corporate identification number U17111GJ2009PTC057251, dated June 15, 2009 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. Thereafter, the name of our company was changed to "Gajanand International Private Limited" and a fresh certificate of incorporation dated May 26, 2023 was Issued by Registrar of Companies, Ahmedabad. Subsequently Limited and a fresh certificate of incorporation dated May 25, 2023 was issued by Registrar of Companies, Anmedabad. Subsequently the name of our company was changed to "Gajanand International Limited" pursuant to a shareholders' resolution passed at an Extra-Ordinary General Meeting held on May 27, 2023 and a fresh certificate of incorporation dated June 01, 2023 was issued by Registrar of Companies, Ahmedabad bearing corporate identification number U17111GJ2009PLC057251. Subsequent to amendment in Object Clause of Memorandum of Association, a fresh certificate of incorporation dated June 18, 2024 was issued by Registrar of Companies, Ahmedabad bearing corporate identification number U01632GJ2009PLC057251. For further details of incorporation please refer to section titled "Our History and Certain Other Corporate Matters" beginning on page 134 of the Prospectus.

Registered Office: Survey No. 1257/1266, Jasdan-Atkot Roadnr. Bypass Circle, Jasdan, Rajkot, Gujarat-360050 Tel: +91-99094 46110; Website: www.gajanand-int.com; E-mall: gajanandcotex@gmall.com
Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Vidhi Mehta

PROMOTER(S): Mr. Ashok Bhagyanbhai Monsara, Mrs. Truptiben Ashokbhai Monsara And Mr. Ashish Dhirailal Monsara

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF 57,36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF GAJANAND INTERNATIONAL LIMITED ("ISSUER" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 36/- PER EQUITY SHARE ("ISSUE") (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 26/- PER EQUITY SHARE), AGGREGATING TO RS. 2064.96 LAKHS ("THE ISSUE"), OUT OF WHICH, 2,88,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 36/- PER EQUITY OUT OF WHICH, 2,58,000 EQUITY SHARES OF PACE VALUE OF NS. 10.º EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 36.º PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 103.68 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 54,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 36/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS 1961.28 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30,45% AND 28,92%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ALLOTMENT PROCEDURE AND BASIS OF ALLOTMENT

The Allotment of Equity Shares to Bidders other than Retail Individual Investors may be on proportionate basis. No Retail Individual Investors will be Allotted less than the minimum Bid Lot subject to availability of shares in Retail Individual Investor Category and the rer shares, if any will be Allotted on a proportionate basis. The Issuer is required to receive a minimum subscription of 90% of the Issuer Flow of Events from the closure of Bidding period (T DAY) Till Allotment:

On T Day, RTA to validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the

Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details

RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file / FC and as per applicant's bank account linked to dep demat account and seek clarification from SCSB to identify the applications with third party account for rejection. Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T+1 day.

RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM(s)/ Company for their review.

Post rejection, the RTA submits the basis of allotment with the Designated Stock Exchange (DSE).

The NSE, post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation

The RTA uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allotees as per process mentioned below Process for generating list of Allottees:

Instruction is given by RTA in their Software System to reverse category wise all the application numbers in the ascending order and

generate the bucket /batch as per the allotment ratio. For example, if the application number is 78654321 then system reverses it to 12345687 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2.7 then the system will create lots of 7. If the drawal of lots provided by Designated Stock Exchange (DSE) is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th application in each of the lot of the categorand these applications will be allotted the shares in that category.

In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the oversubscription

In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications On the basis of the above, the RTA will work out the allotees, partial allotees and non- allottees, prepare the fund transfer letters an

advice the SCSBs to debit or unblock the respective accounts For more details kindly refer the addendum available on www.nseindia.com, www.gajanand-int.com and www.ftfinsec.com

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPA COM

į	Fastrack Finsec Category-I Merchant Banker
FAS	T TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED
Offic	e No. V-116, First Floor, New Delhi House,

27, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Tel: +91 - 011-43029809; Fax: N.A. Emall: vikasverma@ftfinsec.com Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma Website: www.ftfinsec.com SEBI registration number: INM000012500 CIN: U65191DL2010PTC200381

Place: Rajkot Date: 05/09/2024 SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area Phase-I, Nev Delhi – 110020, India Telephone: 011 40450193-97, Fax No: +91-11-26812683 Emall: compliances@skylinerta.com Investor grievance email: info@skylinerta.com Contact Person: Mr. Anuj Rana Website: www.skylinerta.com SEBI Registration Number: INR000003241

IPLIANCE OFFICER

Ms. Vldhl Mehta Behind Geeta Bhavan Mandir, 312 Seva Sardar Nagar, Indore, Madhya Pradesh 452001

Telephone: +91 987279091 Emall:vidhi.mehta10@gmail.com Website: www.gajanand-int.com

Place: Greater Noida

Date: 05.09.2024

nvestors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Manager or the Reaistrar to the Issue, in case of any pre issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic



ई-नीलामी बिक्री सूचना

वतीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत NBFC/HFC के प्रमारित चल ∕ अचल आस्तियों की बिक्री से ाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरी गुम्नितिखत संपत्ति को कब्जा ले लिया है । व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि NBFC/HFC बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रमारि पत्तियों की ई—नीलामी (सरफासी अधिनियम 2002 के अंतर्गत) "**जैसा है जहां है आधार, जैसा है वैसा ही आधार है, जो कुछ भी है"** के आधार पर की जाएगी।

	कर्जदारों का नाम	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मृल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	ई—नीलामी की तिथ्य व समयः समयः 60 मिनट	वसूली हेतु बकाया सीर जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है।			
	1. श्री नितिन कुमार प्रमाकर पुत्र श्री	फ्लैट नंबर सी-1, द्वितीय तल, फ्रीहोल्ड	₹. 7,50,000.00	21/09/2024	कुल बकाया			
	देवेन्द्र प्रभाकर, श्रीमती सुमन प्रभाकर	आवासीय प्लॉट नंबर डी-01पर निर्मित,		पूर्वी 11.00 बजे से	रुपयाँ 14,02,444/-			
	पत्नी श्री नितिन कुमार प्रभाकर और	खसरा नंबर 157 बी, साई उपवन, गांव		दोंपहर 12 बजे तक	दिनांक 05/09/2024 तव			
	श्री मनोज कुमार (गारंटर) पुत्र भूरी	यूसुफपुर चकसाबेरी, परगना और तहसील	₹. 25,000/-	(५ मिन्ट की अवधि				
	सिंह। ऋण खाता संख्या—	दांदरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश		के असीमित विस्तार				
	HSG/N/HEA/NOI/0217/0018	में स्थित है। (भौतिक कब्जा के अंतर्गत)		के साथ)				
_	4 mi							

स्तिविज की आतम ाताथ एवं समय : 20.08.2024 के 4.00 बज अप. तक रिक्षण की तिथि एवं समय : 13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अर्पा.।

सपात को ानारक्षण को तिथि एवं समय : 13,09,2024 की 11,00 बज पूर्वा. सं 4.00 बज अपा. |
"नीलामी के नियम एवं शर्ते इस प्रकार है : 1) ई—नीलामी एनबीएफसी एचएफसी एचएफसी एवंचएकसे हारा अनुमंदित संवा प्रदाता सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनकी वेबसाइट www.bankeauctions.com पर 'बॉल लाइन' आयोजित होगी। संपर्क कर मिथिलेश कुमार, मोबाइल-7080804466, Email-delhi@clindia.com हेल्पलाइन नंबर - 7291981124,25,26, 2) इच्छूक केता / बोलीदाता को लाममोगी संव हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई शाखा, आसफ अली रोर (62203), आईएफ एससी कोड : SBIN0062203 के नाम में खाता संख्या 00000036728174634, में एनईएफटी / आरटीजीएस /डीडी/अंतरण / येक हारा अधवा संख्या हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड के प्रकार में रेव दिल्ली में युगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अध्या अनुस्तित बैंक के हारा इंएमडी का गृगतान करना होगा | 3) चफल बोलीदाता को विकं के दिन ही 25% बोली राष्ट्री (एसआई सहित) का गृगतान करना होगा तथा शंच 75% राशि का गुगतान बिकी की तिथि से 15 दिनों के मीतर किया जायेगा। 4) निर्चारित अवधि रेसफल बोलीदाता / नीलामी के केता हारा गृगतान में यूक करने पर बिकी पर उद्योग होगा है। अधि स्वाध है परिवाद करने अध्या वायेगा। में यूक करने पर बिकी पर केता होगा विकार करने को अधिकार करने को अध्या इं-मीलामी को निरस्त /निर्वार्थित अवशि रेसफल बताये किसी भी चरण में नीलामी प्रकार में संपित या उसके किसी भाग को वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। 8) ई-नीलामी को निरस्त /निर्वार्थित करने अध्या कोई भी कारण बताये ही है। अधिकार या असीकार प्राप्त हो। 8) ई-नीलामी को अन्य नियम एवं शर्त निम्न वेबसाईट फ उपलब्ध है: www.bankeauctions.com तथा www.savehfl.in

दिनांक 05-09-2024, स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ता सलाई, सैवापेट, चेन्नई-600015, ईमेल: auction@hindujahoi एफ8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर-4, महालक्ष्मी मेट्रो, वैशाली, गाजियाबाद-201010

एएलएम — अरूण मोहन शर्मा, 880089899, आरआरएम — अमित कौशिक, 9587088333, सीएलएम — सत्यम गुप्ता, 8006600745, सीआरएम — शशि मिश्रा — 971802530 सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारटरों को संयुक्त रूप से ''कर्जदार'' कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मार कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्दारा कर्जदार और गाएंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है दि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदर शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है ।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति व साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर सविदात्मक दर पर भविष्य क व्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओ आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पतियों का विवरण
1	आवेदन नं. DL/DEL/DWND/A00000372 & CO/CPC/CPOF/A000001432 श्री हवीब अहमद और श्रीमती सीताराम बेगम, <u>दोनों:</u> पैठ वाला वार्ड नं. ७ गोतम बुद्ध नगर दनकौर यूपी—203201		₹ 10,42,486 दिनांक 30.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, गाटा सं. 368/1, 371/2 और 372 मि. में से, गांव/करबा धनकोर (अन्य की सीमा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र), परगना धनकोर, तहसील और जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, (इसके बाद "उक्त संपत्ति" के रूप में संदर्भित)। चौहदी: पूरव में – 14 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में – श्री गगन ठेकेदार का प्लॉट, उत्तर में – श्री साबू कबाड़ी का प्लॉट, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति
2	आवेदन नं. DL/NCU/NOIU/A000000905 DL/NCU/NOIU/A000001216 श्री हरि शंकर और नेहा देवी, दोनों: गांव— रायपुर बांगर सेक्टर—XU-3 ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत — 201310	04-05-2024 30-08-2024 सांकेतिक	₹ 23,81,721/- दिनांक 30.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	रिहायशी मकान क्षेत्रफल 500 वर्ग गज अर्थात 418.05 वर्ग भी., खसरा नं. 301 में से, गाँव रायपुर बांगर के क्षेत्र में, परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी. में स्थित (इसके बाद "उक्त संपत्ति" के रूप में मंदर्भित), चौहरी: पूरव में — सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिम में — सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिम में — सड़क 20 फीट चौड़ी, उत्तर में — श्रीमती रणबीर की संपत्ति, दक्षिण में — सड़क 12 फीट चौड़ी
3	अवेदन नं. DL/UTM/UTTM/A000000224 & CO/CPC/CPOF/A000002251 श्री हरपाल सिंह और मंजू, दोनों: महामेधा वाली गली, अग्रवाल कॉलोनी सूरजपुर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत — 201306	04-05-2024 30-08-2024 सांकेतिक	₹ 21,50,389/- दिनांक 30.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	भूमि क्षेत्रफल 107 वर्ग गज, खसरा सं. 690 में से, तिलपता करनवास, परगना और तहसील दादरी जिला— गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित, (इसके बाद संपूर्ण संपत्ति के रूप में संदर्भित), चौहदी: पूरब में — अन्य की संपत्ति, पश्चिम में — अन्य की संपत्ति, उत्तर में — रेत विहार, दक्षिण में — अन्य की संपत्ति
4	आवेदन नं. DL/DEL/PAND/A000000767 DL/DEL/PAND/A000001272 श्री राज चितारा और श्री निश्कर्ष चितारा, दोनों: एफ303, सेक्टर अल्फा—2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश,	03-05-2024 30-08-2024 सांकेतिक	₹ 19,85,285/- दिनांक 30.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	लीजहोल्ड आवासीय प्लॉट सं. 303 क्षेत्रफल 60 वर्ग मी., आवंटन सं. ए01—2904, ब्लॉक सं. एफ, सेक्टर अल्फा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश (इसके बाद उक्त संपत्ति कहा जाएगा), चौहदी: पूरब में — प्लॉट सं. 302, पश्चिम में — प्लॉट सं. 304, उत्तर में — 12.0 मी. चौड़ी सड़क, दक्षिण में — प्लॉट सं. 325

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक: 05-09-2024, स्थान: गाजियाबाद



YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED

Rend, Office: JA 108 DLF Tower A. Jasola District Centre South Delhi 110025 CIN: L85110DL 2008PLC174706 Email: cs@yatharthhospitals.com Ph.: +911206811236, Website: www.yatharthhospitals.com

NOTICE OF 17[™] ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Notice is hereby given that the 17^{th} (Seventeenth) Annual General Meeting of the members of "Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited" (CIN:L85110DL2008PLC174706) will be held on Saturday, September 28, 2024 at 01:00 P.M. through Video conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OVAM"), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

In accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations &, Disclosure requirement regulations), 2015 read with General Circular Nos.10/2022, December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate affairs ("MCA Circular/s"), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), the Notice of AGM and Annual Report have been sent in electronic mode only to the members whose e-mail addresses are registered with the company/Depository Participants. The requirements of sending physical copy of the Notice of 17th (Seventeenth) Annual General Meeting (AGM) and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular/s. The electronic dispatch of Annual Report to the members has been completed on September 05, 2024. The said Annual Report including 17th AGM Notice is also available on the Company's website at www.yatharthhsopitals.com and on the website of stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM and referred in the Notice of AGM or Annual Report shall be made available electronically for inspection by members upon request to the Company by sending email at cs@yatharthhospials.com.

In compliance with the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (hereinafterreferred to as the 'Act') read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 Regulation44oftheSecuritiesandExchangeBoardofIndia(ListingObligationsandDisclosureReguirements)Regulations,2015.("SE BIListingRegulations"), Secretarial Standards on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide remote e-voting to the members, to vote from the place other than venue of AGM("remote e-voting"). The company is providing facility to members to cast their vote remotely, using electronic voting system ("remote e-voting") for participation in AGM through VC/OVAM facility and remote e-voting during AGM through National Securities Depositories Limited ('NSDL'). The notes to Notice of AGM includes the procedure/instructions for attending AGM through VC/OVAM, remote e-voting by members holding shares through dematerialize mode and physical mode and for members who have not registered their email addresses. Members of the company under category of Institutional Shareholders are encouraged to attend and participate in the AGM through VC/OVAM and vote through remote e-voting. The members participating in the AGM through VC/OVAM facility shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM, if not voted through remote e-voting.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date Monday, September 23, 2024 shall be entitled to cast vote through remote e-voting or attend the meeting through VC/OVAM and cast vote at AGM. The votinc rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on 'Cut-off date. The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 25, 2024 at 9:00A.M. (IST) and end on Friday, September 27 2024 at 5:00 PM. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote has been cast by the shareholder through remote e-voting, it cannot be changed. In case of voting through remote e-voting and also e-voting at the AGM , vote casted through remote e-voting will be considered final and e-voting at the AGM will not be considered.

Any member who acquires shares and become member after dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024 may obtain login id and password by sending email at e-voting@nsdl.co.in. helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, you are registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing User-ID and password for casting your vote.

Mr. Saurav Upadhyay, a Practicing Company Secretary (Certificate of Practice No. 25283, Membership No. ACS 67860), Proprietor, M/s. Saurav Upadhyay & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote evoting process in a fair and transparent manner.

Members seeking any information and intent to ask any question during the AGM may register themselves by mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at cs@yatharthhospitls.com. The Speaker Registration will be opened till Wednesday September 25, 2024. Member(s) holding shares at the cut-off date shall be entitle to register and participate at the AGM. Member having any query/seeking any information are requested to write/send email to the company at least seven days in

advance of AGM at cs@yatharthhospitals.com.

In case of any queries/grievances relating to remote e-voting or e-voting at the AGM, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available at www.evotingindia.com, under help section or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800225533

> By order of the Board of Directors For Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited SD/-Ritesh Mishra

Company Secretary& Compliance Officer

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ताबा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(3)

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (200 के 54) (यहां के बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन् क अ) (पहा के बाद 'आवानयन' के रूप ने संदानत) के प्राययाना के जिता जो है प्रति मूर्ता है कि प्रियतन नियमावली, 2020 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन 'म मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लि. (यहां के बाद "एमबीएचएफ" के रूप में संदर्भित) एमबीएचएफ नाजनचनिताने आने आहे. हिंदि होती होती हैं जिस है जिसे विधिवत केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.06.2021 के तहत प्राधिकृत किया गया है, दिनीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के उद्देश्य के लिए, इसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, एन-2, साउथ एक्सटेंशन भाग-1, नई दिल्ली-110049 के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का भूगतान करने के लिए निम्नलिखित ऋणियों और सह-ऋणियों को मांग सूचना जारी की थी। ऋणी / गारंटर राशि का भूगतान करने में असारक रहे, एतद्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें आर्पाया किए प्रियम्पा निष्पार्थना का निष्पार्थ के साथ बिर्फ रहा जायानिय जा साथ उन्हार्य अस्ति। एउट्टा स्ट्रिस प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित विधि पर नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्वारा नीचे वर्णित संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन लागू ब्याज व उसपर अन्य शुल्कों के सहित "एमबीएचएफ" के प्रभार का विषय होगा। ऋणी का ध्यान प्रतिभूतित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की थारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

ऋणी / सह-ऋणी का नाम व पताः 1. सोना देवी पत्नी रामजी लाल मीना, 2. गिर्राज प्रसाद मीना पुत्र रामजी लाल मीना, 3. खेलनता देवी पत्नी गिर्राज प्रसाद मीना, 4. लाल राम मीना पुत्र **रामजीलाल, 5. रामजी लाल मीना पत्नी गैंदी लाल मीना, सभी निवासी -** के.ए. नंबर 04, धरमपुर की ढाणी, जयपुर मदनपुरा, हंसमहल बस्सी, जयपुर, राजस्थान-303305**.**

डिमांड नोटिस दिनांक : 16-अक्टूबर-2023, **कब्जे की तिथि:** 03.09.2024 **डिमांड नोटिस की राशि :** रु. 03-अक्टूबर-2023 को 6,70,913.64/-

संपत्ति का विवरण : बांसखो, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित पैतृक भूमि अरार्ज खसरा नंबर 04, रकबा 1.7703 में कुल आवासीय भूखंड के भाग 1/15 के सभी टुकड़े और पार्सल जिसका नाम पूर्व से पश्चिम तक 82 फीट और उत्तर से दक्षिण तक 32.6 फीट है। कुल क्षेत्रफल 297.02 वर्ग गज और सोमा इस प्रकार है: पूर्व: 3 फीट गली, पश्चिम: आम रास्ते के साथ 10 फीट अपनी जमीन उत्तर: बद्रीमीना का घर. दक्षिण: बद्री और हरिलाल की भमि।

. स्थान: जयपुर, दिनांक: 03.09.2024 प्राधिकृत अधिकारी, मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लिमिटेड

फॉर्म-ए सार्वजनिक घोषणा (भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड वाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन) (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिव

न्फा पेसिफिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण अल्फा पेसिफिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट ऋणी का नाम कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि 25/11/2003 प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली गठित / पंजीकृत है कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार U74900DL2003PTC123228 की सीमित देयता पहचान सं कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा एफ-69/1, गली नं. 4, सभाष विहार नार्थ घोंडा उत्तर पूर्व, नई दिल्ली- 110053 प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता 07.01.2022 (माननीय एनसीएलटी का अंतिम आदेश कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाल 30.08.2024 को पारित किया गया था) दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की 26.02.2025 (माननीय एनसीएलटी के अंतिम अनमानित तारीख आदेश दिनांक 30.08.2024 से 180 दिन बाद) अनुमानित ताराब अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और BBI/IPA-001/IP-P-01117/2019 -2020/12508 पंजीकरण संख्या 30 हर्ष विहार, पीतमपुरा, दिल्ली, उत्तर पश्चिम, अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110034 र्डमेल: atuliagnani@gmail.com 10. अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के 405. नई दिल्ली हाउस. 27 बाराखंभा रोड. लिए उपयोग किए जाने वाला पता और कर्नाट लेस, नई दिल्ली, 110001 ई-मेल shhaaecificendineerspriv ईमेल: alphapecificengineersprivateli@gmail.com 13.09.2024 (माननीय एनसीएलटी के अंतिम आहेश 11. दावों के निवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 30.08.2024 की तारीख से 14 दिन बाद) 12. धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार तहत लेनवारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, लागू नहीं अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित 13. दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार | विनाराजाजन प्रसन्त । । | नेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में लागू नहीं कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम) (क) प्रासंगिक फार्म और वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads

इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ, (कोर्ट III) ने **07.01.2022** (माननीय एनसीएलटी का अंतिम आदेश 30.08.2024 को पारित किया गया था) को **मेसर्स अल्फा पेसिफिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड** के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। **मेसर्स अल्फ पेरिफिक इंजीनियर्स प्राइनेट लिमिटेड** के लेनदारों को **13.09.2024** को या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो प्रविष्टि नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना हैं। वेत्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक ाध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर सकते हैं।

द्मवे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्मोना लगाया जाएगा। अंतरिम समाधान पेशेवर अल्फा पेसिफिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली एएफए वैषता 02.01.2025 तक

(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां भौतिक पताः लागू नहीं

श्री अतुल जगना

तरंगिनी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यातयः के-37/ए. बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110048 सीआईएन: L67190DL1982PLC013486, फोन: 01-42657135 tsltd.com; ईमेल आईडी: taran ni0123@gmail.com वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 . सितंबर, 2024 को अपराह 03.00 बजे, के—37 / ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली—110048 में आयोजित की जाएगी । बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियां जिसमें उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म शामिल है

जिसमें बैठक में किए जाने वाले साधारण कारोबार और विशेष कारोबार को दर्शाया गया है साथ ही 31 मार्च, 2024 तक का बैलेंस शीट, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए का विकास और नकरी प्रवास विकास उपकी अनुमित्रमां और निर्दे लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें उन सदस्यों को, जिन्होंने कपनी / कपनी के रजिस्ट्रार और ट्रासफर एजेंट के पास अपना ईमेल आईडी पंजीकत नहीं कराया है। उनके संबंधित पंजीकत पते पर डाक दारा और उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक रूप से भेजी गर्ड हैं जिन्होंने अपना ईमेल पत गंजीकत करा लिया है **।**

. सदस्यों को सुचित किया जाता है कि बैठक की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (www.taranginiinvestmentsltd.com) पर उपलब्ध हैं और उक्त दस्तावेजो की प्रतियां बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) में कारोबारी घटों के दौरान कंपनी के पंजीकत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य, स्वयं के स्थान पर मतदान मे उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला वैध दस्तावेज बैठक शुरू होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

ु सदस्यों को सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ, और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 03.00 बजे, के—37 / ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन वे गस, नई दिल्ली—110048 में आयोजित होने वाली वार्षिक आम बैठक ('बैठक') में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। बैठक में मतपत्रों के माध्यम से मतदान के सामान्य तरीके के अलावा रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से, कंपनी ने ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप मे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं।

दूरस्थ ई—वोटिंग से संबंधित संचार, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ—साथ बैठक ्रूपार पुरावा के एक प्रति, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म शामिल है, सभी सदस्यों बुलाने की सूचना की एक प्रति, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म शामिल है, सभी सदस्यों जैसा भी मामला हो, भेज दिया गया है/ईमेल कर दिया गया है। यह संचार और बैठक की सूचना कपनी की वेबसाइट www.taranginiinvestmentsItd.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर उपलब्ध है।

यह रिमोट ई—वोटिंग सविधा 27 सितंबर. 2024 को सबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शरू होगी और 29 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी, इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

केवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2024 के सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, वह बैठक में मतदान के साथ—साथ दूरस्थ ई—वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट और रनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं नेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

कोई भी सदस्य, जो वोट देने का हकदार है, लेकिन उसने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं किया है. नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों के लिए बैठक में भौतिक मतपत्र के माध्यम से वोट कर सकता है। सदस्यों को वोट डालने के लिए बैठक स्थल पर मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे ।

बोर्ड के आदेश से कृते तरंगिनी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

दिनांक: 05.09.2024 स्थानः नई दिल्ली

(पंकज खेतान) निदेशक डीआईएनः 01567415

Chandigarh

हस्ता/-

CIN: U74899DL1995PTC071324 For GAJANAND INTERNATIONAL LIMITED On Behalf of the Board of Director Ashok Bhagvanbhai Monsara Managing Directo